



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 640) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2024

सं० 01/स्था0 (बि0स0स0) 02-01/2018 1041—सू0ज0स0वि0  
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

संकल्प

26 अक्टूबर 2021

**विषय:- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अधीन गठित बिहार संवाद समिति के अन्तर्गत आवश्यकता आधारित कुल 37 (सैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार, प्रभावकारी लोक संवाद स्थापित कर लोगों की प्रतिक्रियाओं एवं अनुक्रियाएँ प्राप्त करने, ब्रांड बिहार विकसित करने, प्रगति एवं उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने तथा विभिन्न मुद्दों पर लोगों का मूड, परशेषण एवं फीडबैक जानने-समझने के उद्देश्य से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के प्रावधानों के अधीन बिहार संवाद समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु क्रियेटिव्स का निर्माण करने, विज्ञापन कार्यों को फैंसिलिटेट करने और समाचारों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अधीन बिहार संवाद समिति का गठन किया गया है।

उक्त दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए राज्य सरकार ने बिहार संवाद समिति के अन्तर्गत आवश्यकता आधारित कुल 37 (सैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति निम्नवत् रूप में प्रदान की है:-

क्र०सं०	पदनाम	पारिश्रमिक भत्ते सहित	पदों की संख्या	वार्षिक व्यय भार	पद का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	जेनरल मैनेजर	120000	01	1440000	संविदा/प्रतिनियुक्ति पर
2	डी0जी0एम0 एडमिनिस्ट्रेशन	84200	01	1010400	संविदा/प्रतिनियुक्ति पर
3	डी0जी0एम0 पब्लिक रिलेशन	84200	01	1010400	संविदा पर
4	डी0जी0एम0 (इनफॉर्मेशन)	84200	01	1010400	संविदा पर
5	मैनेजर एच0आर0	60000	01	720000	संविदा पर
6	मैनेजर फाइनांस एण्ड ऑडिट	60000	01	720000	संविदा पर

क्र०सं०	पदनाम	पारिश्रमिक भत्ते सहित	पदों की संख्या	वार्षिक व्यय भार	पद का प्रकार
1	2	3	4	5	6
7	मैनेजर प्रोक्यूरोमेंट	60000	01	720000	संविदा पर
8	मैनेजर एकाउण्ट्स	60000	01	720000	संविदा पर
9	मैनेजर लीगल	60000	01	720000	संविदा पर
10	मैनेजर वेबसाइट	60000	01	720000	संविदा पर
11	मैनेजर पी०आर०/ब्रांडिंग	60000	01	720000	संविदा पर
12	मैनेजर प्रिंट मीडिया	60000	01	720000	संविदा पर
13	मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	60000	01	720000	संविदा पर
14	मैनेजर सोशल मीडिया	60000	01	720000	संविदा पर
15	आई०टी० मैनेजर	48400	01	580800	संविदा पर
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	54200	02	1300800	संविदा पर
17	ग्राफिक्स डिजाइनर	54200	05	3252000	संविदा पर
18	साउण्ड एडिटर	54200	01	650400	संविदा पर
19	स्क्रिप्ट राइटर	54200	04	2601600	संविदा पर
20	वीडियो एडिटर	54200	01	650400	संविदा पर
21	पी०आर० एक्सपर्ट	54200	01	650400	संविदा पर
22	ट्रांसलेटर (अंग्रेजी-हिन्दी-01, हिन्दी-उर्दू-01)	36800	02	883200	संविदा पर
23	बुक कम्पोजर	36800	01	441600	संविदा पर
24	एकाउन्टेन्ट	36800	01	441600	संविदा पर
25	स्टेनोग्राफर	36800	04	1766400	संविदा पर
कुल पद			37	24890400	

2. इन पदों पर नियुक्ति होने के उपरांत कुल वार्षिक व्यय रु० 2,48,90,400/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार चार सौ) मात्र संभावित है।

3. कर्मियों के वेतनादि का भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि अथवा क्रियेटिक्स के निर्माण के विरुद्ध विभाग से प्राप्त विज्ञापन मद की समिति के खाते में संचित 15 प्रतिशत की राशि से किया जायेगा।

4. आवश्यकतानुसार कार्यों के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए पदों को भरा जायेगा। आवश्यकता का आकलन कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा। नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

5. पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन बिहार विकास मिशन के द्वारा नियुक्त HR Agency के माध्यम से किया जायेगा।

6. पदों की अर्हता, नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतनादि में आवश्यकतानुसार लघु संशोधन/वार्षिक वेतन वृद्धि का निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा किया जा सकेगा।

7. किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की सेवा प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करने की स्थिति में उनको बिहार संवाद समिति द्वारा देय वेतनमान/परिलब्धियाँ, उनके मूल पद पर देय वेतनमान/परिलब्धियाँ से कम नहीं होगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनुपम कुमार,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 640-571+300-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>